



Dynamic Cables Limited

(Govt Recognised STAR Export House)

www.dynamiccables.co.in

Date: November 14, 2022

To

BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001
Scrip Code: BSE-540795

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1
G-Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra(East) Mumbai-4000501
Trading Symbol: DYCL

Sub: Intimation of Newspaper publication under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the Regulation 47 of Listing Regulations, we enclose herewith copies of newspaper publication in Indian Express (English) and Business Remedies (Hindi) edition, on November 13, 2022, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, in respect of the passing of resolution through postal ballot.

The same is also made available on the website of the Company at www.dynamiccables.co.in

This is for your information and records.

Thanking you,

For Dynamic Cables Limited

**Naina
Gupta**

Digitally signed by Naina Gupta
DN: cn=Naina Gupta, postalCode=324009,
st=Jharkhand,
2.5.4.21=9a813a883a09510d80404094
e03811431f2684c1981209853a607a
d,
serialNumber=9E2F40813E8A2039C84A
04E829431DC3E1,
serialNumber=459708AC30CCD51554F76
74A7AD9911E52519AB81D34C7CAE541D
AB4E4095, cn=Naina Gupta
Date: 2022.11.14 19:05:10 +05:30

Naina Gupta
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. A56881
Encl.: as above



CIN: L31300RJ2007PLC024139

Regd. Office & Unit-1: F-260, Road No.13, VKI Area, Jaipur-302013 (INDIA)
Ph: +91 141 2262589, 4042005 | Fax: +91 141 2330182 | Email: info@dynamiccables.co.in

HT Upto 66KV & LT Aerial Bunched, Power, Control & Railway Signalling Cables, ACSR/AAC / AAAC / AL-59 / MVCC Conductors.

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
BRANCH-GANDHI CHOK NOHAR (31148)
DISTT.-HANUMANGARH RAJ.

APPENDIX-IV (See rule-8(1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the State Bank of India (GANDHI CHOK, NOHAR (31148) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 26.08.2022 calling upon the borrower Shubham Enterprises Prop-Madan Beniwal Near Old Aushdhaly Parika Teh. Nohar Distt. Hanumangarh, (Raj.) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 10,65,290/- (Ten Lac Sixty Five Thousand Two Hundred Ninety only) as on 24.08.2022 within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this date 07 NOVEMBER 2022.

The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India (Gandhi Chok Nohar (31148) for an amount of Rs.10,65,290/- (Ten Lac Sixty Five Thousand Two Hundred Ninety only) as on 24.08.2022 and interest included up to 23.08.2022 plus further interest, cost etc. thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY (Stock)
(Please state the particulars of the immovable properties mortgaged to the Bank as stated in the documents having reference to the mortgage documents/deeds) [Schedule 'B'] Equitable mortgage of Land and building situated at Residential House Near Old Aushdhaly Ward No-3 Parika Teh. Nohar, Distt. Hanumangarh, (Raj.) Standing in the name of Sh. Madan Kumar S/o Sh. Ramtara Ram Total Measuring 23.50 sq. yard, Surrounded by As per Title Deed East Resi. Sh. Hanuman Prasad, West: Sh. Ram Chandra, North: Road, South: Resi. Plot Sh. Kashi Ram Date: 07/11/2022
Place: Nohar Hanumangarh (Raj.)
Authorised Officer, (State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Branch: Sector-5, Nohar (32270), Distt. - Hanumangarh, (Raj.)

APPENDIX-IV (See rule-8(1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the STATE BANK OF INDIA, Sector-5, Nohar (32270) under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (No. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice Dated 23.08.2022 calling upon the Borrower M/S Sita Traders, Nohar (335223) (RAJ.) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 15,68,263/- (Fifteen Lac Sixty Eight Thousand Two Hundred Sixty Three Only) (14,67,257/- in loan account 37759341456 & Rs. 1,01,006/- in loan account no 39607362454 as on 23.08.2022 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this date 07 NOV. 2022. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the STATE BANK OF INDIA, Sector-5, Nohar (32270) for an amount of Rs. 15,68,263/- (Fifteen Lac Sixty Eight Thousand Two Hundred Sixty Three Only) (14,67,257/- in loan account 37759341456 & Rs. 1,01,006/- in loan account no 39607362454 as on 23.08.2022) (Included Interest up to 22.08.2022) Plus further interest costs, etc. thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
Equitable mortgage of Land and building situated at Ward no-1, Dhani Sikhian, Back Side Durga Colony (Railway Line) Gram Panchayat Sardarpura Tehsil Nohar Distt. Hanumangarh, (Raj.) measuring Size 35'6" x 42'00" of size 55'14" north facing as per Bank record in the name of Mr. Sunil Kumar S/o Mr. Kheta Ram Saini, Standing in the name of Sh. Sunil Kumar S/o Sh. Kheta Ram Total Measuring: 1495.2 sq.Ft., Surrounded by: As per Title Deed, East: Sh. House of Sh. Bhanwar Lal Joshi, West: House of Sh. Devial, North: Road, South: House of Sh. Hanuman
Date: 07.11.2022, Place: Nohar, Hanumangarh, Raj.)
(Authorized Officer, State Bank of India)

GOVERNMENT OF ODISHA
"G" PROCUREMENT NOTICE
OFFICE OF THE CHIEF CONSTRUCTION
ENGINEER, KHORDHA (R&B) CIRCLE, KHORDHA
WORKS DEPARTMENT
Tender call Notice
Bid Identification No. CCE-Khordha (R&B) Circle-18/2022-23 Memo No -2145
B-814

The Chief Construction Engineer, Khordha (R&B) Circle, Khordha on 7.11.2022 Governor of Odisha inviting percentage rate bid in double cover system in ONLINE MODE from eligible contractors for Building work as detailed in the table below:

- Nature of Work : Building Works
- No of Work : 1 No
- Tender Cost : Rs.10000.00 (On-Line)
- Class of Contractor : A Class s
- Available of Bid document : From 10.00 AM of Dt.14.11.2022up to 05.00 PM of Dt.24.11.2022 up to 5.00 PM
- Date of opening of Bid : Dt 25.11.2022 at 11.30 AM

The Bidders have to participate in ONLINE bidding only. Further details can be seen from the Website: <https://tenderodisha.gov.in> Any Addendum / Corrigendum / Cancellation of tender can also be seen in the said website.

Chief Construction Engineer,
Khordha (R&B) Circle, Khordha
OIPR-34127/11/0027/2223

Dynamic Cables Limited
Regd. Office: F-260, Road No. 13, VKI Area, Jaipur 302013 (Rajasthan)
Phone No.: +91 141262589
CIN: L31300RJ2007PLC024139 Email: investor.relations@dynamiccables.co.in

NOTICE TO THE MEMBERS FOR POSTAL BALLOT

Dear Member(s), NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("SS-2") General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 22/2020 dated 15th June, 2020, No. 33/2020 dated 28th September, 2020, No. 39/2020 dated 31st December, 2020, No. 10/2021 dated 23rd June, 2021, No. 20/2021 dated 8th October, 2021 and No. 32/2022 dated 5th May, 2022 issued by Institute of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), SEBI vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/697 dated 15th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/697 dated 22nd December, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/697 dated May 13, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and other applicable rules/regulations/guidelines/circulars/notifications, Dynamic Cables Limited ("Company") will be seeking consent of the members of the Company, through Postal Ballot, only by way of remote electronic voting ("e-voting").

The Postal Ballot Notice will be sent only by e-mail to all those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Central Depository Services Limited (CDSL) as on Friday, 18th November, 2022 in accordance with the MCA and SEBI Circulars. Postal Ballot Notice will also be made available on the website of the Company i.e. www.dynamiccables.co.in, website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and website of NSE Limited i.e. www.nseindia.com. The notice of the postal ballot will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") i.e. www.evotingindia.com.

The members are requested to register their e-mail address, in respect of DEMAT holdings with their respective Depository Participant by following the procedure prescribed by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). The members who have not registered their e-mail addresses can also cast their vote through e-voting by following the procedure prescribed in the Notice of Postal Ballot. All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA-Bigshare Services Private Limited under their email id at investors@bigshareonline.com Members may also write to Company Secretary at the company email address cs@dynamiccables.co.in.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the MCA Circulars. It is also informed that none of the members of the Company hold equity shares in physical form.

Date: 12.11.2022
Place: Jaipur
By the order of the Board
For Dynamic Cables Limited

Naina Gupta
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. A56861

AAVAS FINANCIERS LIMITED
(Formerly known as Au HOUSING FINANCE LIMITED) (CIN:L65922RJ2011PLC034297)
Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020

AUCTION NOTICE

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "Au HOUSING FINANCE LIMITED") Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis. The details of the cases are as under:

Name of Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors	Dues As on	Date & Amount of Demand Notice	Date of Possession	Description of Property	Reserve Price For Property	Earnest Money For Property	Date & Time of Auction	Place of Tender Submission, Tender Open
Kavita Sharma, Mr. Jitendra Kumar Sharma <Name of Guarantor> Guarantor : Mr. Ramesh Kumar Pareek (Ac No.) LNMJP01414-15001254	Rs. 4,628,984.41/- Dues as on 32 Nov 2022	1 Apr 21 Rs. 3260594.41/- Dues as on 31 Mar 21	14-Sep-21	Flat No.5, 2nd Floor, "Abudana Dreams" Plot No. 25, Adinath Nagar, Near Dhaka Nagar, Sirsi Road, Jaipur, Rajasthan. Admeasuring 1415.00 Sq. ft.	Rs. 2669256/-	Rs. 2669256/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	201-202, 2ND FLOOR, SOUTH END SQUARE, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302020, RAJASTHAN-INDIA
Ramshay Choudhary, Mrs. Prem (Ac No.) LNMJP00315-160018639	Rs. 4,138,153.41/- Dues as on 12 Nov 2022	5 Oct 19 Rs. 1945029.41/- Dues as on 4 Oct 19	8-Jan-20	Plot No.19 & 20, Scheme Santosh Nagar, Kalwar Road, Machawra, (Surajpote Gate Grah Vikas Sehkari Samiti Ltd, Jaipur, Reg. No.2235/1) Jaipur, Rajasthan. Admeasuring 167.5 Sq. Yd. & 170.83 Sq. Yd. (Total Admeasuring Area 335 Sq. Yd.)	Rs. 2657412/-	Rs. 2657412/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	201-202, 2ND FLOOR, SOUTH END SQUARE, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302020, RAJASTHAN-INDIA
Poonam Devi, Mr. Kapil, Mr. Ramesh Chand Guarantor : Mr. Rajendra Kumar (Ac No.) LNMJP00715-160020366	Rs. 6,552,490.41/- Dues as on 12 Nov 2022	23 Sep 19 Rs. 3252730.41/- Dues as on 23 Sep 19	5-Jan-20	Plot No. 14, Shyam Vatika 1st, Sirsali Grah Nirman Sahakari Samiti Ltd, Kartarpura, Distt. Jaipur, Rajasthan. Admeasuring - 100 Sq. Ft.	Rs. 2761200/-	Rs. 2761200/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	201-202, 2ND FLOOR, SOUTH END SQUARE, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302020, RAJASTHAN-INDIA
Vimla Devi, Mr. Dinesh Kumar Guarantor : Mr. Jitendra (Ac No.) LNPAL02215-160027542	Rs. 6,835,444.41/- Dues as on 12 Nov 2022	1 Apr 21 Rs. 4672890.41/- Dues as on 31 Mar 21	29-Oct-21	Near Neor Khajri Kuva, High School To Hospital Road, Moja Marwar Junction, Gram Panchayat & Teh. Marwar Junction, Dist. Pali, Rajasthan. Admeasuring 1170 Sq. Ft.	Rs. 3894480/-	Rs. 3894480/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	2ND FLOOR, PLOT NO.-874, INDRA VIHAR NAGAR, OPP. SAINIK VISHRAM GRUH, NAYA GAON ROAD, PALI-306401, RAJASTHAN-INDIA
Bhagwana Ram, Mrs. Dhapa (Ac No.) LNNK02916-170042784 & LNNK04317-180065642	Rs. 2,334,307.41/- & Rs. 841,328.41/- Dues as on 12 Nov 2022	6 Nov 19 Rs. 1526762.41/- & Rs. 524954.41/- Dues as on 5 Nov 19	16-Nov-21	Patta No. 5, Missal No. 5, Sankalp No. 03, & Patta No. 7, Missal No. 07-004, Gram Jhadeli, Gram Panchayat Jhadeli, Panchayat Samiti- Nokha, District- Bikaner, Rajasthan. Admeasuring 5586 Sq. Ft. (Patta No.5) & Admeasuring 4200 Sq. Ft. (Patta No.7)	Rs. 2451643.2/-	Rs. 245165/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	DAGA BUILDING, 2ND FLOOR, JAIN CHOWK -NOKHA, DIST -BIKANER-334803, RAJASTHAN-INDIA
Puja Khandelwal, Mr. Pravech Khandelwal (Ac No.) LNJST02117-180054039	Rs. 4,159,066.00/- Dues as on 12 Nov 2022	4 Jun 19 Rs. 2980122/- Dues as on 3 Jun 19	6-Mar-21	Flat No.204, First Floor, Samridhi Tower, Plot No.50, Maruti Colony (Scheme No.4B), Nangal Jaais Bohra, Benar Road, Jaipur, Rajasthan. Admeasuring 1137.00 Sq. Ft.	Rs. 2619648/-	Rs. 261965/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	OFFICE NO.201, 113 & 210 1ST FLOOR & 2ND FLOOR, SANGAM TOWER, CHURCH ROAD, JAIPUR-302001, RAJASTHAN-INDIA
Puja Khandelwal, Mr. Pravech Khandelwal (Ac No.) LNJST02117-180054257	Rs. 3,041,354.00/- Dues as on 12 Nov 2022	4 Jun 19 Rs. 2133850/- Dues as on 3 Jun 19	6-Mar-21	Flat No.303, Second Floor, Samridhi Tower, Plot No.50, Maruti Colony (Scheme No.4B), Nangal Jaais Bohra, Benar Road, Jaipur, Rajasthan. Admeasuring 800.00 Sq. Ft.	Rs. 1843200/-	Rs. 184320/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	113 & 210 1ST FLOOR & 2ND FLOOR, SANGAM TOWER, CHURCH ROAD, JAIPUR-302001, RAJASTHAN-INDIA
SHYAM SUNDER SHARMA, Mrs. MANJU DEVI (Ac No.) LNC001818-19009211 Guarantor : Mr. AMIT KUMAR SAINI (Ac No.) LNC00617-180062515	Rs. 746564/- & Rs. 1,434,519.00/- Dues as on 12 Nov 2022	5 Jan 22 Rs. 601678/- & Rs. 1176926/- Dues as on 3 Jan 22	20-Jan-22	PROPERTY SITUATED AT PLOT NO B-19, SCHEME GANPATI VIHAR-1 SITUATED AT SAMOD ROAD, MORIA, CHOMU, JAIPUR, RAJASTHAN Admeasuring 217.77 Sq. Yard	Rs. 1851830/-	Rs. 185183/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	905, 9TH FLOOR KING'S PLAZA, ASTRON CHOWK, 360001, GUJARAT-INDIAGROUND FLOOR, SHREE PRAYAG COMPLEX, RENWAL ROAD, DHOLI MANDI-CHOMU-303702, RAJASTHAN-INDIA
Mukesh Singh Rathore, Mrs. Renu Bala (Ac No.) LNJPT01818-190079152 Guarantor : Mr. Santosh Kumar Tank (Ac No.) LNJPT00617-180067341	Rs. 1,808,609.00/- & Rs. 2,818,191.00/- Dues as on 12 Nov 2022	18 Nov 19 Rs. 988315/- & Rs. 1584796/- Dues as on 13 Nov 19	22-Feb-20	Plot No. 8 & 9, J.P Colony, (Pragrupa Grah Nirman Sahakari Samiti Ltd, Jaipur Rajasthan Reg. No.2701/1) Daulatpura, Benar Road, Jaipur Rajasthan. Admeasuring Area - 65.77 Sq. Yd. (Total Admeasuring Area - 131.4 Sq Yd.)	Rs. 2043532.8/-	Rs. 204354/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	201-202, 2ND FLOOR, SOUTH END SQUARE, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302020, RAJASTHAN-INDIA
NAVATAN SHARMA, Mrs. NITU SHARMA, Mr. RAJENDRA SHARMA (Ac No.) LNDK02919-200132789 & LNDK11721-220181573	Rs. 500,888.00/- & Rs. 2,553,146.00/- Dues as on 12 Nov 2022	11 Nov 21 Rs. 397763/- & Rs. 2102328/- Dues as on 8 Nov 21	20-May-22	GRAM KESHAWALLA, PATTIA MISSAL NO.93, GRAM PANCHAYAT DHANKYA, PANCHAYAT SIMITI JHOTWARA, JAIPUR, RAJASTHAN Admeasuring 317 Sq. Yard	Rs. 2601200/-	Rs. 260120/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	201-202, 2ND FLOOR, SOUTH END SQUARE, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302020, RAJASTHAN-INDIA
Mukesh Sharma, Mrs. Pooja Devi, Mr. Pawan Kumar Kumawat Guarantor : Mr. Kamalakar Samadhan Patil (Ac No.) LNMJP01417-180076532	Rs. 2,607,615.00/- Dues as on 12 Nov 2022	1 Apr 21 Rs. 1888886/- & Rs. 890737/- Dues as on 21 Mar 21	28-Oct-21	F-2, 1st Floor, Plot no. I-34, Situated at Scheme bhadra, Buniyad Vikas Grah Nirman Sahakari & Niwaru, Jaipur, Rajasthan. Area: 202.22 Sq. Yd.	Rs. 1714147.2/-	Rs. 171415/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	201-202, 2ND FLOOR, SOUTH END SQUARE, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302020, RAJASTHAN-INDIA
Ratan Singh Rathore, Mrs. Vinod Kanwar, Mr. Maan Singh Rathore Guarantor : Mrs. Daryav Kanwar (Ac No.) LNJST00317-180070167	Rs. 4,009,124.00/- Dues as on 12 Nov 2022	30 Mar 21 Rs. 3903138/- Dues as on 27 Mar 21	14-Jun-22	North Part of Plot No.40, Scheme Gopi Nagar, (Buniyad Vikas Grah Nirman Sahakari & Niwaru Ltd.) Badaaram, Kalwar Road, District- Jaipur, Rajasthan. Admeasuring 896.4 Sq. Ft.	Rs. 3643200/-	Rs. 364320/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	113 & 210 1ST FLOOR & 2ND FLOOR, SANGAM TOWER, CHURCH ROAD, JAIPUR-302001, RAJASTHAN-INDIA
Anjali Singh, Mr. Pankaj Singh (Ac No.) LNJAR03718-190077485	Rs. 4,328,089.00/- Dues as on 12 Nov 2022	2 Feb 19 Rs. 1835132/- Dues as on 2 Feb 19	10-Jun-19	West Part Of Plot No. 6 In Gaytri Nagar-I, Sangarner Distt. Jaipur Rajasthan Admeasuring 141.11 Sq.Yard	Rs. 1957586.4/-	Rs. 195759/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	DIOMAND TOWER, 1ST FLOOR, AJMER DCM ROAD, JAIPUR-302020, RAJASTHAN-INDIA
Lokesh Kalia, Mrs. Pooja Jaiswal (Ac No.) LNDK02919-19006937 & LNDK01818-190091547	Rs. 3,243,123.00/- & Rs. 1,220,836.00/- Dues as on 12 Nov 2022	31 Mar 21 Rs. 2403871/- & Rs. 890737/- Dues as on 31 Mar 21	25-Oct-21	plot no-38 , pal colony, scheme no 5 vistar, bhadra, Buniyad Vikas Grah Nirman Sahakari & Niwaru, Jaipur, Rajasthan. Admeasuring - 200. 00 sq.yrd	Rs. 3169440/-	Rs. 316944/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	201-202, 2ND FLOOR, SOUTH END SQUARE, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302020, RAJASTHAN-INDIA
BHUMIKA S AGARWAL, (Ac No.) LNDK02919-210171180 Guarantor : Mr. PRAVEEN KUMAR SHARMA (Ac No.) LNMJP02219-200132446	Rs. 196,136.00/- & Rs. 3,464,272.00/- Dues as on 12 Nov 2022	26 Nov 21 Rs. 130771/- & Rs. 3,464,272.00/- Dues as on 25 Nov 21	7-Jun-22	FLAT NO.-1-1, THIRD FLOOR, YASH APARTMENT-KTH, BUILT ON PLOT NO.-A-74, DADU DAYAL NAGAR, A-BLOCK, KALYANPURA, SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN Admeasuring 1560 Sq. Ft.	Rs. 2995200/-	Rs. 299520/-	11.00 AM TO 01.00 PM 19 Dec 2022	201-202, 2ND FLOOR, SOUTH END SQUARE, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302020, RAJASTHAN-INDIA

Terms & Conditions: 1) The person, taking part in the tender, will have to deposit his offer in the tender form provided by the AFL which is to be collected from the above branch offices during working hours of any working day, super scribing "Tender Offer for name of the property" on the sealed envelope along with the Cheque/DD/pay order of 10% of the Reserve Price as Earnest Money Deposit (EMD) in favour of AAVAS FINANCIERS LIMITED payable at Jaipur on/before time of auction during office hours of the above mentioned offices. The sealed envelope will be opened in the presence of the interested parties who want to know about the procedure of tender may contact AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "Au HOUSING FINANCE LIMITED") The inter-bidding, if necessary will also take place among the available bidders. The EMD is refundable if the bid is not successful. 2) The successful bidder will deposit 25% of the bidding amount adjusting the EMD amount as initial deposit immediately or within 24hrs after the fall of the hammer towards the purchase of the asset. The successful bidder failing to pay the balance of the said 25% of the bidding amount will be forfeited & balance amount of the sale price will have to be deposited within 30 days after the completion of the sale by the secured creditor; otherwise his initial payment deposited amount will be forfeited. 3) The Authorised officer has absolute right to accept or reject any bid or adjourn/postpone the sale process without assigning any reason therefor. If the date of tender opening is declared as holiday by Government, then the auction will be held on next working day. 4) For inspection and interested parties who want to know about the procedure of tender may contact AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "Au HOUSING FINANCE LIMITED") 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur-302020 or Anil Sharma 7440410757 or respective branch during office hours. Note: This is also a 15/30 days notice under Rule 9(1)(b) of the Borrowers/Guarantors/Mortgagor of the above sold loan accounts/loans which is to be bidding sale on the above mentioned date. Place : Jaipur Date : 13-11-2022

Authorised Officer Aavas Financiers Limited

PUBLIC NOTICE

TAKE NOTICE that under the instructions of our client we are investigating the title and interest of STAR CRYOGENICS PRIVATE LIMITED, a Private Limited Company, duly incorporated under the Companies Act, 2013 having its Registered Office at C2/254, Jankpuri, New Delhi, 110058 in respect of the lease hold plot along with the boundary wall constructed thereon and more particularly described in the Schedule hereto under written ("said Property"). All persons having any claim, right, title, estate, share or interest in respect of the said Property or any part thereof, by way of an agreement, demand, sale, transfer, exchange, tenancy, sub-tenancy, lease, sub-lease, mortgage (equitable or otherwise), gift, lien, charge, trust, inheritance, bequest, possession, easement, assignment, license, devise, demise, partition, charge, pledge, guarantee, family arrangement, development rights, joint venture, partnership, loans, advances, acquisition, requisition, encumbrance, injunction or any other attachment, or under any decree, order or award passed by any Court of Law, Tribunal, Revenue or Statutory Authority or arbitration, right of prescription or pre-emption or by operation of law or otherwise howsoever is/are hereby requested to notify the same in writing, together with notarially certified true copies of relevant documentary proof in support thereof, to the undersigned with supporting documentary evidence at the address mentioned hereinbelow within 14 (fourteen) days from the date hereof failing which, the claim or claims, if any, of such person or persons shall be deemed to have been waived and/or abandoned.

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO:
("The said Property")
All that piece or parcel of Industrial plot of land bearing No. SP-6-73, measuring 22835 Sq. Mtrs. and the boundary wall standing thereon, situated at Industrial Area Ghiloth, Rajasthan within the limits of Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd and bounded as follows:
On or towards North by: 24 mtr Road & Plantation area;
On or towards South by: 16 mtr wide Road;
On or towards East by: SP-6-73;
On or towards West by: 24 mtr Road.

For ANM Global Inc.
Miss. Hemangi Abhyankar (Advocate and Solicitor)
1410, Maker Chamber V, Nariman Point, Mumbai 400 021
Email: hemangi.abhyankar@anmglobal.net; contact@anmglobal.net
Dated: 13.11.2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

WONDER HOME FINANCE LTD.
WONDER Corp. Office: 620, 6th Floor, North Block, World Trade Park, Malviya Nagar, JLN Road, Jaipur- 302017, TEL: 0141 - 4750000

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

As the Loan Account became NPA therefore the Authorised Officer (AO) Under section 13 (2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act 2002 had issued 60 day demand notice to the borrower as given in the table. According to the Notice if the Borrower does not deposit the amount within 60 days, the amount will be recovered from Auction of the security as given below. As the demand Notice sent to the borrower/guarantor has not been served, copy of demand notice has also been affixed on the secured assets as given below. Therefore you the borrower is informed to deposit the loan amount along with future interest and recovery expense within 60 days, otherwise under the provisions of section 13(4) and 14 of the said Act, the Authorised Officer is free to take possession of the Security as given below.

Name of the Borrower	Date & Amount of Demand Notice Under Sec. 13(2)	Description of Mortgaged Property
Sh. Mohan Lal Sharma (Applicant & Mortgagor), Sh. Teekam Sharma (Co-Aplicant), Smt. Beena (Co-Aplicant), Smt. Kamla Devi Sharma Co-Aplicant, Add : Survey No. 411, Ward No. 67, J.P. Colony, Kachhi Basti-1, Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan 302016	Loan Account No. LN29005HE21-22005245 09-Nov-2022 Rs. 23,55,818/- Rs. Twenty Three Lakh Fifty Five Thousand Eight Hundred Eighteen only	Survey No. 411, Ward No. 67, J.P. Colony, Kachhi Basti-1, Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302006. Admeasuring about 140.11 Sq. Yards. As per Actual North: House of Mohan Lal Ji, South: Plot No. 410, East: Average 31.5' Road, West: Open Land
Sh. Munna Kumar Ray (Applicant & Mortgagor), Smt. Sarita Devi (Co-Aplicant), Add : Hawala Ki Dhani, Lakda Mandi, Gram Vatika Tehsil Sangarner, Distt. Jaipur, Rajasthan. Also at Plot No. 08, J.P.B. Nagar-I, Village Vatika, Lakhdha Mandi, Fatehpura Road, Sangarner, Jaipur, Rajasthan. Sh. Chanda Lal Saini (Guarantor) Add : Fatehpura Road, Hawala Ki Dhani, Lakda Mandi, Gram Vatika Tehsil Sangarner, Distt. Jaipur, Rajasthan.	Loan Account No. LN29004HC21-22004782 09-Nov-2022 Rs. 78,14,293/- Rs. Eight Lakh Fourteen Thousand Two Hundred Ninety Three only	Plot No. 08, J.P.B. Nagar-I, Village Vatika, Lakhdha Mandi, Fatehpura Road, Sangarner, Jaipur, Rajasthan. Admeasuring about 122.22 Sq. Yards. North : Open Plot, South : Open Plot, East : Open Agriculture Land, West : Road 30 Feet Wide

Date : 11.11.2022, Place : Jaipur
Authorised Officer Wonder Home Finance Ltd.

YES BANK LIMITED Branch Office: Plot No. O-19, Third Floor, Ahinsa Circle, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan - 302001 Registered Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055

PUBLICATION OF NOTICE U/S 13 (2) OF THE SARFAESI ACT

Notice is hereby given that the under mentioned borrower(s)/ guarantor(s)/mortgagor(s) who have defaulted in the repayment of principal and interest of the Overdraft facilities obtained by them from the Bank and whose facility account has been classified as Non-Performing Assets (NPA). The notices were issued to them under Section 13(2) of the Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) on their last known addresses but they have been returned un-served and as such they are hereby informed by way of this public notice.

Sr.	Agreement No.	Type of Loan	Name of Borrowers, co-borrowers, Mortgagors/ Guarantor	Olis. As per 13(2) Notice	NPA Date	Notice Date	Details of secured asset
1	AFH003300645009	MOR	(Borrower And Mortgagor) MR ABDUL RASHID LUHAR (Co-Borrower And Mortgagor) (MOHAMMED AFJAL LUHAR JAUNUL LUHAR SHABANAM BANU (Guarantor & Mortgagor) WASIM KHAN	Rs. 16,55,330.81 (Rupees Sixteen Lakhs Fifty Three Thousand Three Hundred Thirty And Paise Eighty One Only) as on 18th-Oct-22	13-June-2022	27-Oct-22	ALL THE PIECE AND PARCEL OF East part of Plot No. 12, Araji No.1601, Bhi

स्वर्ण नगरी मुम्बई के रियल एस्टेट मार्केट का प्रमुख ब्राण्ड है 'रुस्तमजी'

मालिकाना कंपनी 'कीस्टोन रियल्टर्स लि.' का आईपीओ 14 से 16 नवम्बर के बीच खुलेगा

आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथोरिटी जैसे 16 बड़े एंकर निवेशकों ने आईपीओ में निवेश किए 190 करोड़ रुपये

क्र.सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		छमाही समाप्त		वर्ष समाप्त
		30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2021	
1	कुल परिचालन आय	2081.57	3331.81	2878.56	5413.38	5833.15
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले)	(43.18)	20.85	48.18	(22.33)	106.44
3	अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(43.18)	20.85	48.18	(22.33)	106.44
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(41.05)	22.41	36.60	(18.64)	70.57
5	अवधि के लिए कुल आय	(41.05)	22.41	36.60	(18.64)	70.57
6	समाप्त अंश पूंजी	266.06	266.06	266.06	266.06	266.06
7	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	-	-
8	आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रति का अंशित मूल्य) मूल एवं तहत	-1.54	0.84	1.38	(0.70)	2.65

नोट: 1. उपरोक्त एफएल वित्तीय परिणाम की ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 12 नवंबर, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अधिनियम, 2015) के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों के साथ दायित्व किए गए रिमांडी और छमाही के परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.gpl.co.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्तु मालिकाना लिमिटेड
हस्ताक्षर /
अशोक कुमार पायल
प्रबंध निदेशक
DIN: 00183513

स्थान: जयपुर
दिनांक: 12.11.2022

KG PETROCHEM LIMITED						
CIN: L24117RJ1980PLC001999						
Regd. Office: C-171, Road No. 91, Viji Nagar, Jaipur-302013, Rajasthan						
E-mail: iprfil@kgpl.com ; kgpl@kgpl.com ; Website: www.kgpetro.in ; Phone: 91-141-2331231						
सितम्बर 30, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखणीयतः एकल वित्तीय परिणाम						
(₹. लाख में) प्रति शेयर आय को छोड़कर						
क्र.सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		छमाही समाप्त		वर्ष समाप्त
		30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2021	
1	कुल परिचालन आय	7,442.85	7,649.44	7,457.17	15,092.29	15,361.16
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले)	223.76	677.30	712.07	901.06	2,292.58
3	अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	223.76	677.30	712.07	901.06	2,292.58
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	123.46	438.65	535.47	562.11	1,706.76
5	अवधि के लिए कुल आय	123.46	438.65	535.47	562.11	1,706.76
6	समाप्त अंश पूंजी	581.53	581.53	581.53	581.53	581.53
7	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	-	-
8	आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रति का अंशित मूल्य) मूल एवं तहत	2.36	8.40	10.26	10.77	32.69

नोट: 1. उपरोक्त एफएल वित्तीय परिणाम की ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 12 नवंबर, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अधिनियम, 2015) के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.kgpetro.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्तु मालिकाना लिमिटेड
हस्ताक्षर /
गौरी शंकर कंदोई
प्रबंध निदेशक
DIN: 00120330

स्थान: जयपुर
दिनांक: 12.11.2022

जैन मार्मो इंडस्ट्रीज लिमिटेड						
पंजीकृत कार्यालय: 47/10, चिन्मयनगर नगरसेक्टर, जयपुर राजस्थान-302020						
कार्य कार्यालय: एच.एच.8, सुन्दर, इयमंड पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर-313001 (राजस्थान)						
दूरभाष: 0294-2441666, 2441777, फैक्स: + 91-294 2440681						
वेबसाइट: www.jainmarmo.com , ई-मेल: jainmarmo_jdr@yahoo.com , सैल/मोबाइल: 914101RJ1981PLC002419						
30 सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के गैर-अंकेक्षित वित्तीय परिणाम						
(₹. लाखों में)						
विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही	गत वर्ष की समाप्त तिमाही			
			30 सितम्बर 2022 (गैर-अंकेक्षित)	30 सितम्बर 2022 (गैर-अंकेक्षित)	30 सितम्बर 2021 (गैर-अंकेक्षित)	30 सितम्बर 2021 (गैर-अंकेक्षित)
परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	15.51	39.56	39.60			
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि), (कर, असाधारण और या असाधारण वस्तुओं से पहले)	-18.74	-28.43	-2.60			
अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	-18.74	-28.43	-0.26			
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	-13.95	-21.04	-2.01			
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर परचात) समावेशित लाभ / (हानि) और अन्य समावेशित आय (कर परचात))	-13.95	-21.04	-9.84			
इक्विटी शेयर पूंजी	313.06	313.06	313.06			
अर्थात् निधि (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित बेलेंस शीट में दिखाया गया है।	-	-	-			
आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रति का अंशित मूल्य) (नियमित व अनियमित संचालन के लिए)	-0.45	-0.67	-0.06			
1. मूल और नुकसान:						
का उपरोक्त 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किया गया है।						
दिनांक: उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अधिनियम, 2015) के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.jainmarmo.com पर उपलब्ध है।						
निदेशक मंडल के आदेश से जैन मार्मो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए कृते/						
सिद्धार्थ जैन प्रबंध निदेशक DIN: 01275806						
स्थान: उदयपुर दिनांक: 12.11.2022						

SANGAM (INDIA) FINANCIAL						
CIN: L17118RJ1984PLC003173						
EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2022						
Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Financial Year Ended	
	30.09.22	30.06.22	30.09.21	30.09.22	30.09.21	31.03.22
	Unaudited		Unaudited		Audited	
1 Total Income from Operations	71241	71900	64230	143041	105515	244400
2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	4327	6508	4684	10835	6691	19638
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4006	6508	4684	10514	6691	18409
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3003	6253	2987	8286	6271	14065
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	3063	6273	3055	8336	4372	14098
6 Paid-up Equity Share Capital	4505	4342	4342	4505	4342	4342
7 Other Equity	6	6	6	6	6	6
8 Earning per share (not annualised) (before extraordinary items) (₹. 10/- each) Basic & Diluted (in ₹.)	7.69	12.10	6.88	18.73	9.85	35.06
9 Earning per share (not annualised) (after extraordinary items) (₹. 10/- each) Basic & Diluted (in ₹.)	6.95	12.10	6.88	18.00	9.88	32.23
10 Earning per share (not annualised) (after extraordinary items) (₹. 10/- each) Basic & Diluted (in ₹.)	6.82	11.86	6.88	18.83	9.85	32.06

Note:

- The above Consolidated financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2022 are reviewed by the Audit Committee and thereon were approved by the Board of Directors in their meeting held on 10th November, 2022.
- As per regulation 47(b) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 result on standalone basis for the quarter ended 30th September 2022 is given: (1) Revenue from Operations 71241 Lakhs (2) Profit/Loss Before Tax 4006 Lakhs and (3) Profit/Loss after Tax 3003 Lakhs.
- The Company has approved the Employee stock option scheme 2022 to eligible employees of the company as on 01st August 2022. The company has granted 427500 stock options during the quarter.
- The Company has issued 1125000 sweat equity shares for non cash consideration for past events from which the economic benefits are expected to flow and have been accordingly debited proportionately to employee cost with element of withholding tax shown as exceptional items.
- As per the Regulation 30 of Regulation 2015 the company has allotted 5,00,000 Equity shares of Rs.10/- each fully paid up at a Premium of Rs. 170/- per share on conversion of share warrants on equity share for every warrant on 28th September, 2022.

6 The above is an extract of the detailed Consolidated Financial Result for the quarter and half year ended 30th September, 2022 filed with the stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Standalone and Consolidated financial results are available on the stock Exchanges websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.sangamgroup.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Chairman
(Pr. Secy)
DIN: 00401439

Date: November 10, 2022
Place: Bhiwara

Regd. Off.: Alun, Chittorgarh Road, Bhiwara-311001 (Raj.)
Phone: 01482-245400, Fax: 01482-245450
Web: www.sangamgroup.com, Email: secretarial@sangamgroup.com

Sangam
YOU ARE WHAT YOU WEAR

Sangam
SANGAM YARNS
100% OVED GREY & COTTON

Sangam
YOU ARE WHAT YOU WEAR

C9
AIRWEAR

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 13 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, परिचालन लाभ 12% बढ़ा

बिजनेस रेमेडीज/मुम्बई। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 30 सितंबर 2022 को समाप्त हुई तिमाही और छमाही के लिए अपने लेखापरीक्षित ना किए गए वित्तीय परिणामों की घोषणा की है।

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ब्याज से प्राप्त कुल आय (एन.आई.आई.) में वृद्धि और प्राथमों और आकरिमकताओं में कमी के कारण जुलाई-सितंबर में रु. 13 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीपीओपी वर्ष-दर-वर्ष 26.9% बढ़कर रु. 172.5 करोड़ पहुंच गया और वित्तवर्ष 2023 की पहली छमाही में पीपीटी रु. 20.8 करोड़ पर पहुंच गया।

इस प्रदर्शन पर बोलते हुए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भास्कर बाबू ने कहा: 'हमारे बैंक ने वित्तवर्ष 2023 की पहली छमाही में स्थिर प्रदर्शन किया है क्योंकि सूक्ष्मवित्त और उससे जुड़े कारोबार के अन्य क्षेत्र अपने कौविड से पहले के वृद्धि के स्तर पर लाभोन्मुख वापस आ गए हैं।

व्यावहारिक माँग के माहौल के बेहतर होने के कारण संचितरण की गतिविधियों धीरे-धीरे तेज होती जा रही हैं। हमारे समावेशी वित्तीय ऋण ऋण, जिनके माध्यम से हम देश के बैंकिंग सेवा से वंचित रहने वाले और आवश्यकता से कम बैंकिंग सुविधा प्राप्त वाले लोगों को सूक्ष्मवित्त ऋण प्रदान करते हैं, वे कुल ऋण ख्याते का 64.4 प्रतिशत योगदान देते हैं। दीर्घवधि में इस बैंक का ध्यान सस्ते आवास ऋण, सूक्ष्म व्यवसाय के ऋण, व्यवसाय के ऋण और व्यावसायिक वाहनों के लिए ऋण वाले सुरक्षित ऋण प्रदान करने के पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी को बढ़ाने पर होगा। भविष्य में, हम अपने संयोजन की क्षमता को साथ-साथ बेहतर बनाते हुए, अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहते हैं। एनआईआईई वर्ष-दर-वर्ष 19.5 प्रतिशत बढ़कर रु. 176 करोड़ रही (एक वर्ष पहले की अवधि में रु. 147 करोड़)।

कंपनी प्रवर्तकों का अनुभव



बोमन रुस्तम ईरानी

52 वर्षीय प्रवर्तक बोमन रुस्तम ईरानी कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने एम.एच. साबू सिद्धिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल विषय में बैचलर डिग्री हासिल की है। वें वर्तमान में रियल एस्टेट की राष्ट्रीय संस्था केडाई के प्रेसिडेंट हैं। उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर में कार्य करने का 26 वर्षों का अनुभव है।



चंद्रेश मेहता

53 वर्षीय प्रवर्तक चंद्रेश मेहता कंपनी के कार्यकारी निदेशक भी हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भूवनेश्वर से मैनेजमेंट विषय में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर में कार्य करने का 18 वर्षों का अनुभव है।

52 वर्षीय प्रवर्तक बोमन रुस्तम ईरानी कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने एम.एच. साबू सिद्धिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल विषय में बैचलर डिग्री हासिल की है। वें वर्तमान में रियल एस्टेट की राष्ट्रीय संस्था केडाई के प्रेसिडेंट हैं। उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर में कार्य करने का 26 वर्षों का अनुभव है।

53 वर्षीय प्रवर्तक चंद्रेश मेहता कंपनी के कार्यकारी निदेशक भी हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भूवनेश्वर से मैनेजमेंट विषय में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर में कार्य करने का 18 वर्षों का अनुभव है।

53 वर्षीय प्रवर्तक चंद्रेश मेहता कंपनी के कार्यकारी निदेशक भी हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भूवनेश्वर से मैनेजमेंट विषय में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर में कार्य करने का 18 वर्षों का अनुभव है।

शहर में प्रत्यक्ष रूप से जमीन खरीदने पर निवेश नहीं करना पड़ता है। कंपनी प्रोजेक्ट क्रियाकलाप, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन साइट की निर्माण गतिविधियों को संभालने, मार्केटिंग और सेल्स अर्थात् प्रोजेक्ट विकसित करने का कार्य करती है। 30 जून 2022 तक कंपनी ने मुम्बई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 32 प्रोजेक्ट्स पूर्ण कर लिये हैं जबकि 12 प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है और 21 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बोमन रुस्तम ईरानी के अनुसार कंपनी 1 से 3 करोड़ रुपये की कीमत के अफेडिबल हाउस, 3 से 7 करोड़ रुपये मिड रेंज हाउस और 14 से 16 करोड़ रुपये के प्रीमियम हाउस निर्मित कर बिकी करती है। उन्होंने बताया कि कंपनी 41 करोड़ रुपये और 70 करोड़ रुपये के सुपर प्रीमियम हाउस भी बनाकर बेचे हैं।

30 जून, 2022 तक कंपनी ने 20.22 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्रफल में उच्च-मूल्य और किफायती आवासीय भवनों, प्रीमियम गेटेड एस्टेट्स, टाउनशिप, कॉर्पोरेट पार्कों, रिटेल स्पेसेज, स्कूलों, प्रतिष्ठित स्थलों और विभिन्न अन्य रियल एस्टेट परियोजनाओं को विकसित किया है।

असेट लाइट बिजनेस मॉडल: ईरानी के अनुसार कंपनी की सोच शुरू से ही कंपनी के बिजनेस मॉडल को असेट लाइट रखने की रही है ना कि बैंड बैंक स्थापित करने की। इसीलिए कंपनी भूमालिकों, डवलपर्स और सोलायटियों के साथ कुछ स्लम रिडेवलपमेंट में ज्वाइंट डवलपमेंट एग्रीमेंट व रि-डवलपमेंट के बिजनेस मॉडल पर कार्य करती है। इससे कंपनी को मुम्बई जैसे महंगे

लहर फुटवियर्स लिमिटेड

(पूर्व नाम लॉवरशेयर पोलिमर्स लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय ए-243(ए), रोड नं. 6, वीकेआई परिया, जयपुर 302013, फोन: 0141-4157777
वेबसाइट: www.leharfootwear.com, ई-मेल: info@leharfootwear.com, CIN: L19201RJ1994PLC008196

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त तिमाही
		30 सितम्बर, 2022 (गैर-अंकेक्षित)	30 जून, 2022 (गैर-अंकेक्षित)	30 सितम्बर, 2021 (गैर-अंकेक्षित)	30 सितम्बर, 2022 (गैर-अंकेक्षित)	
1	परिचालन से कुल आय	7957.33	3651.39	4897.82	11608.72	13747.14
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि), (कर, असाधारण और या असाधारण वस्तुओं से पहले)	276.63	38.51	151.62	315.14	365.93
3	अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	276.63	38.51	151.62	315.14	365.93
4	अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	203.63	28.82	109.99	232.45	183.92
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर परचात) समावेशित लाभ / (हानि) और अन्य समावेशित आय (कर परचात))	203.63	28.82	109.99	232.45	183.92
6	समाप्त अंश पूंजी	1367.88	1367.88	1367.88	1367.88	1367.88
7	संरक्षित निधि (पुनर्मुल्यांकन संरक्षित निधि को छोड़कर) गत वर्ष की अंकेक्षित बेलेंस शीट में दर्शाए गये अनुसार	0	0	0	0	3180.08
8	आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रति का अंशित मूल्य) (नियमित एवं अनियमित संचालन के लिये)	1.49	0.21	0.8	1.7	1.83
मूल		1.49	0.21	0.8	1.7	1.83
तदनुकूल		1.49	0.21	0.8	1.7	1.83

नोट: 1. उपरोक्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है, जिसे सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अधिनियम, 2015) के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया है। तिमाही वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.leharfootwear.com पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित कंपनी बैठक में ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गयी एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

3. खंड रिपोर्टिंग के प्राचयन लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
लहर फुटवियर्स लिमिटेड
कृते/
राज कुमार अजवाल
(प्रबंध निदेशक)
दिनांक: 12/11/2022
स्थान: जयपुर

नोट: कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को पंजीकृत निवेशकों से सलाह लेनी चाहिए।

डायनेमिक केबल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एच-260, रोड नं.13, वीकेआई परिया, जयपुर 302013 (राजस्थान)
दूरभाष नं.: +91 1412262589 फैक्स नं.: +91 141 2330182
CIN: L 31300RJ2007PLC024139, ईमेल: investor.relations@dynamiccables.co.in

पोस्टल बैकट के लिए असेट्स को नोटिस						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--